

॥ गोविन्दाष्टकम् ॥

कोवीन्त्सुकंठकम्

(1)

सत्यं ज्ञानमनन्तं नित्यमनाकाशं परमाकाशं
 गोष्ठप्राङ्गणरिङ्गणलोलमनायासं परमायासम् ।
 मायाकाल्पितनानाकारं भूवनाकारं
 क्षमामानाथमनाथं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥

सत्यम् ज्ञानाणा मनुन्तम् नित्यमनुन्तम् परमाकाशम्
 कोष्ठकंठ प्रराङ्ककणा रीङ्ककणलोल
 मनुयासम् परमायासम् ।
 मायाकल्पितनानाकारम् खुबुकारम्
 क्षमामानातमनातम् प्रणमत कोवीन्तम्
 परमानन्तम् ॥

पूर्वेवी, लक्ष्मीमि तेवीयरुक्कु नातनाणे कोवीन्तने
 नमस्करीयुन्कूले. अवर् लेत्य - ग्राण - अनन्तस्वरुपि
 पूर्णमानवर्, माट्टुत्तेऽमुविल तवृ आशेप्पट्टवर्,
 कणाप्पे इल्लातवर्, आनाळं कणात्तु काणेतक्कवर्.
 मायायाकप्प पलवायवंकूले केण्टवर्, उल्लेक्षुरुवाणवर्
 अवर्.

(2)

मृत्त्वामत्तीहेति यशोदाताडनशेशवसन्त्वासं
 व्यादितवक्तालोकितलोकालोकचतुर्दशलोकालिम् ।
 लोकवय पुरमूलस्तम्भं लोकालोकमनालोक
 लोकेशं परमेशं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥

मरुत्सन्ना मत्स्तीर्हेति यचोत्ता
 ताटन शेशव सन्तरासम्
 व्यातीत वक्तरा लोकीत लोका
 लोक चतुर्त्तश्लोकालिम् ।
 लोकत्रयपुरमूल संतम्पम् लोका
 लोक मनुलोकम्
 लोकेकम् परमेशम् प्रणमत
 कोवीन्तम् परमानन्तम् ॥

குழந்தையாய் இருக்கும்பொழுது, 'மண்ணைத் தின்று விட்டாயே' என்று யசோதை அடித்து, அதட்டினாலே அவரை. உடனே வாயை திறந்தபொழுது பதிநான்கு உலகங்களையும் கண்டு களித்தாலே! மூன்று உலகங்களின் ஆதார ஸ்தம்பம் போல் அமைந்தவரும் அவர்தான். அத்தகைய பரமானந்த கோவிந்தனை நமஸ்கரியுங்கள்.

(3)

तैविष्परिपुवीरघनं क्षितिभारघनं भवरोगघनं
कैवल्यं नवनीताहारमनाहारं भुवनाहारम् ।
वैमल्यस्फुटचेतोवृत्तिविशेषाभासमनाभासं
शैवं कैवलशान्तं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥

தரைவிஷ்டபரிபுவீரக்ஞம் கஷிதி
பாரக்ஞம்பவரோகக்ஞம்
கைவல்யம் நவநீதாஹார
மனைஹாரம் புவனைஹாரம் ।
வைமல்யஸ்புட சேதோவிருத்தி
விசேஷாபாஸ மனைபாஸம்
சைவம் கேவலசாந்தம் ப்ரணைமத
கோவிந்தம் பரமானந்தம் ॥

மூவுலகையும் பகைக்கும் அசுரரை யழித்தவரும், பூபாரத்தையும், ஸம்ஸார நோயையும் அகற்றி கைவல்யம் தருபவரும், ஆஹாரமேதும் வேண்டாதவரெளினும் உலகுக்கு ஆஹாரமானவரும், நவநீதம் என்ற வெண்ணையை ஆகாரமாக்கக் கொண்டவரும், தெளிவாய் இல்லாதவரெனினும் தூயமனதில் தெளிந்திருப்பவருமான கிருஷ்ண பரமாத்மாவை வணங்குங்கள்!

(4)

गोपालं भूलीलाविग्रहगोपालं कुलगोपालं
गोपीखेलनगोवर्धनधृतिलीलालालितगोपालम् ।
गोभिर्निगदितगोविन्दस्फुटनामानं बहुनामानं
गोधीगोचरदूरं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥

कोपालम् पूर्वेला विकरहूकोपालम् कुलकोपालम्
कोपीकेलनु कोवर्त्तना त्तरुतीलेला
लालितकोपालम् ।
कोपीर्निकतीत कोविन्त्त संपुट नामानुम् पहुङ्गामाणम्
कोत्तीकोशरत्तुराम् परणमात् कोविन्त्तम्
परमाणन्त्तम् ॥

अवर कोपालं एनप्पटुकिरार्. पूमि तेवी विजेया
याटुम् आज्ञामुकर्, कुलपर्वतमेयानवरुम्कूट, कोपीयरोटु
विजेयाटुतेल, कोवर्त्तन मलेये तुक्कि निरुत्तलं पोन्ऱ
विजेयाट् टुक्किलालं यातवरे मक्किप्पित्तवर्, कोविन्त्ता,
कोविन्त्ता एन पक्किकेलो कूप्पिटुम् वन्नेमिरुन्त्तवर्. पल
पेयरुल्लवर्, पक्किकलीनं पुत्तिक्कुक्कूट एट्टुम् अलावील
उल्लवर्. अत्तकेय परमाणन्त्त कोविन्त्तले चेवियुन्कलं.

(5)

गोपीमण्डलगोष्ठीभेदं भेदावस्थमभेदाभं
शश्वदगोखुरनिर्धूतोदगतधूलिधूसर सौभाग्यम् ।
श्वाभिक्षुहीतानन्दमचिन्त्यं चिन्तितसद्भावं
चिन्तामणिसहिमानं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥

कोपीमण्डल कोष्ठपेतम् पेतोवल्लतमपेतोपम
क्षेवत्तकोकुरा नीर्तुत - उत्तकत तुली तुलार
लेलापाक्यम् ।
क्षरत्ता पक्तीक्कुरु हर्त्तानन्त्तम् क्षिन्त्तयम् क्षिन्त्तीत सत्पावम
क्षिन्त्तामणी महर्माणम् परणमात् कोविन्त्तम्
परमाणन्त्तम् ॥

கோபிகளுக்குள் பகுபாதம் வைப்பவர், வெவ்வேறு நிலைகளிலிருந்தும் வித்யாசம் பாராட்டாதவர். பக்கள்குளம்பு கிளப்பியதூசு படிந்தும் அழகானவர், சிரத்தை பக்கி இவற்றிற்கு மகிழ்பவர், ஸத்பாவத்தையே எண்ணுபவர், சிந்தாமணியொத்த பெருமை வாய்ந்தவர் அப்பெருமான். அத்தகைய கோவிந்தனை சேவியுங்கள்.

(6)

ஸ்நாநவ்யாகுலயோஷி஦்வஸ்தமுபாடாயாगமுபாருங்
வ்யாடித்ஸந்தீரத் விவர்தா ஦ாதுமுபாக்ஷந்த் தா: |
நிர்ஷுதங்காக்விமோஹ் சூஷ்ச் சூஷ்சரந்த: ஸ்஥்
ஸத்தாமாத்வரீர் ப்ரணமத ஗ோவிந்஦ பரமாநந்஦ம் ||
ஸ்நான வ்யாகுல யோஷித்வஸ்தர முபாதர
யாகமுபாருடம்
வ்யாதித்ஸந்தீரத திக்வஸ்தரா தாது
முபாகர் ஷந்தம் தா: |
நிர்தாத த்வய சோக விமோஹம் புத்தம் புத்தே ரந்தஸ்தம்
ஸத்தாமாத்ர சரீரம் ப்ரணமத கோவிந்தம்
பரமானந்தம் ||

குளித்துக் கொண்டிருக்கும் பெண்களின் துணிகளை எடுத்துக் கொண்டு மரத்தின் மீது ஏறியவர், அவற்றைப் பெற விரும்பி, துணியில்லாத உடம்புடன் கரையேற தவிக்கும் அந்த கோபியரை இழுத்த வண்ணம் விளையாடுகிறார். அவருக்கு சோகமோ, மோகமோ இல்லை, ஞானமே உருவானவர், புத்தியிலுறைபவர் 'எங்கும் உள்ளார்' என்று மட்டும் உணரத் தக்கவர். அத்தகைய கோவிந்தனை சேவியுங்களேன்.

(7)

காந்த காரணகாரணமாடிமநாடிஂ கால஘நாமாஸ
காலிந்திரதகாலியஶிரसி ஸுநृத்யந்த் முஹத்யந்தம் |
கால் காலகலாதித் கலிதாஶேஷ் கலி஦ோஷந
காலந்தயாதிஹேது ப்ரணமத ஗ோவிந்஦ பரமாநந்஦ம் ||

காந்தம் காரண காரணமாதிமநாதிம் காலகணுபாஸம்
 காலிந்தீகத காலிய சிரளி ஸாந்துத்யந்தம்
 முஹாத்யந்தம்।
 காலம் கால கலாதீதம் கலிதாசேஷம் கலிதோஷிக்னம்
 காலத்ரய கதிலேறுதும் ப்ரணமத கோவிந்தம்
 பரமானந்தம்॥

காரணங்களுக்கெல்லாம் மூல காரணமானவர், முதல்வர்.
 ஆனால் முதல் இல்லாதவர்; கருந்தல் முகில் போன்ற அழகிய
 திருமேனி படைத்தவர், யமுனையில் இருக்கும் காலியன் மேல்
 எப்பொழுதும் ஆடுபவர், காலமானவர் ஆனால் காலத்துளி
 களுக்கு அப்பாற்பட்டவர், எல்லாம் அறிந்தவர். கலியின்
 கொட்டத்தை முடக்கியவர். முக்காலமும் செயல்பட இருக்கும்
 அத்தகைய கோவிந்தனை சேவியுங்கள்!

(8)

வृन्दावनभुवि वृन्दारकगणवृन्दाराधितवन्द्यायाः
 कुन्दाभासलमन्दस्मेरसुधानन्दं सुमहानन्दम्।
 वन्द्याशेषमहासुनिमानसवन्द्यानन्दपदञ्चन्द्रं
 नन्द्याशेषगुणाव्ये प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम्॥
 பிருந்தாவனபுவி ப்ருந்தாரக - கண - பிருந்தாராதித
 வந்த்யாயாம்
 குந்தாபாமலமந்தஸ்மேர ஸாதானந்தம்
 ஸாமஹானந்தம்।
 வந்த்யாசேஷ மஹாமுனி மானஸ வந்த்யானந்த
 பத்தவந்தவம்
 நந்த்யாசேஷ குணைப்திம் ப்ரணமத கோவிந்தம்
 பரமானந்தம்॥

தேவர்கள், சித்தர்கள் முதலியோரால் போற்றிப் புகழிப்
 பட்டவிருந்தாவனத்தில் குந்த புஷ்பமென தூய முன்சிரிப்புடன்
 பேரானந்தம் கொண்டு, அனைத்து முனிவர் மனதிலும் நின்று
 நிலைபெற்ற திருவடிகளையுடைய, குணக்குன்றான
 கோவிந்தனை சேவியுங்கள்.

(9)

गोविन्दाष्टकमेतदधीते गोविन्दार्पितचेता यो
गोविन्दाच्युत माधव विष्णो गोकुलनायक कृष्णेति ।
गोविन्दाङ्गि सरोजध्यानसुधाजलधौत समस्ताधो
गोविन्दं परमानन्दामृतमन्तः रथं स तमस्येति ॥

कोविन्ताष्टकमेत तत्त्वेते कोविन्तारप्रित चेता यो
कोविन्तास्युत मातव विष्णेना कोकुल नुयक
कंरुष्टेनेति ।
कोविन्ताङ्करिस रोज्जु त्याने लाताज्जलतेतात
कोविन्तम परमानन्तामरुत मन्तः लस्तम ल
तमप्येति ॥

कोविन्त, अस्युत, मातव, विष्णेना, कोकुलनुयक,
कंरुष्टेन एन्ऱु कोविन्तंपालं मनम वेत्तु इन्त कोविन्त
ताष्टकत्तेत पटिप्पवर, कोविन्तं तिरुवटित तामरेय
त्यानम चेय्वतनाल अवेत्तु पापन्करुम नैकप बेर्ऱु
अन्तारात्मावान परमानन्त लवरुपियाने कोविन्तवेव
अटेवर.

कोविन्ताष्टकम मुरूरिऱ्ऱु.

